Scrip Code - 536264



13th June, 2022

BSE Ltd., P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Sub: Submission of Newspaper Clipping for the publication of Outcome of EGM

Dear Sir,

This is in reference to the captioned subject, please find the enclosed newspaper clipping of Outcome of EGM.

- 1. English Daily: "Financial Express".
- 2. Hindi Daily: "Jan Satta".

You are requested to kindly take the aforesaid information on your records and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You

For Tiger Logistics India L

Harpreet Singh Malhorra Managing Director

DIN: 00147977

Corporate Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area,

Phase-1, New Delhi - 110020 (India) Tel.: +91-11-47351111

Fax: +91-11-26229671 E-mail: tlogs@tigerlogistics.in Website: www.tigerlogistics.in

CIN# - L74899DL2000PLC105817

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम,

2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन)

नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उप धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18.1.2022 जारी कर श्रीमती पूनम, मै. सुरभि

एण्टरप्राईजेज के प्रॉप्राइटर को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित

राशि रु. 13,84,540.00 /- (रुपये तेरह लाख चौड़ासी हजार पांच सौ चालिस मात्र)+ 18.01.2022

से अनुंबधित दर पर अप्रयुक्त ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। सुचना पंजी-एडी/स्पीड पोस्ट

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को

सचित किया जाता है कि आज, 10 जन, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभित हित प्रवर्तन नियमावली

2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित

सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां ऊपर वर्णित राशि

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में

बैंक के पास गिरवी तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है: श्रीमती

पुनम, पत्नी श्री राम किशोरी के नाम में खाता नं. 34/45, खसरा नं. 136/1 (1-13-0, किल्ला

1, रकवा 13 बीघा, बिसवानी का 1139/41580, 18 बिसवानी, प्लॉट एरिया 136 वर्ग यार्ड्स,

प्राईमरी स्कूल के निकट, नाथुपुर गांव, डीएलएफ सिटी, फेज III, गुरूग्राम में स्थित फ्री होल्ड

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा।

आज़ादी क

हस्ता.

(पी०के०शर्मा

कश्मीर में लश्कर के दो आतंकवादी गिरफ्तार

फिराक में थे।

श्रीनगर, 10 जून (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में बारामुला जिले के सोपोर इलाके से सुरक्षाबलों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो 'हाइब्रिड आतंकवादियों 'को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवादियों को गुरुवार देर रात सोपोर इलाके के गुरसीर में पुलिस, सीआरपीएफ और सेना द्वारा संयुक्त रूप से लगाई जांच चौकी के निकट गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारुद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी की जानकारियां देते हुए पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षाबलों ने सीर की ओर डरपोरा-डेलिना से आ रहे दो लोगों को रोका,

जिन्होंने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। प्रवक्ता ने कहा, 'गिरफ्तार लोगों की पहचान फैजान अहमद पाल

apis

एपिस इंडिया लिमिटेड CIN: L51900DL1983PLC164048 पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

दूरभाष: 011-43206650 | फैक्स: 011-25713631 ई-मेल : mail@apisindia.com वेबसाइट: www.apisindia.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक जो मूल रूप से आयोजित होने वाली थी शुक्रवार, 10 जून, 2022 को स्थगित कर दिया गया है और गुरुवार, 16 जुन, 2022 को आयोजित होने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए ("लेखापरीक्षित" वित्तीय परिणाम) और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी

अनुशंसा करने के लिए। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक की तारीख के 48 घंटे बाद तक सभी नामित व्यक्तियों के लिए कंपनी की प्रतिभतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी।

के वरीयता शेयरों पर लाभांश पर विचार करने और

उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कते एपिस इंडिया लिमिटेड अमित आनंद **दिनांक** : 10 जून, 2022 (प्रबंध संचालक)

स्थान : नई दिल्ली DIN: 00951321 प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किंपनी (निगमन) निवम, 2014 के निवम

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 13 की उपधारा(4)

30 अनुसरण में}

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-निवम (5) के खंड (क) के मामले में ब्लैक स्वान एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका

पंजीकृत कार्यालय है एन-59, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली-110048 स्थित है, के मामले में आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि

यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताय करती है। अतिरिक्त में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि करने की मांग करती है। 10 जून 2022 को असाधारण सामान्य मीटिंग आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 'विल्ली' से 'महाराष्ट्र' राज्या में स्थानांतर कर सके।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या **सुपुर्द** कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक केंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजे। ब्लैक स्वान एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

एन-69, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली-110048 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से ब्लैक स्वान एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तारीख: 10.06.2022 डायरेक्टर

स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 िकंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन

DIN:02289616

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

युकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-117, भूतल, पुष्पांजलि एन्क्लेव, विकास मार्ग, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092 आईएन में है, के मामले में आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''**रा.रा. क्षेत्र दिल्ली''** से ''गुजरात राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी

को सक्षम बनाने के लिए 6 जून, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित

परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों (14) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

यकेबी इलेक्टॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये हस्ता./-मनोज तायल (प्रबंध निदेशक) स्थानः नई दिल्ली तिथि: 10.6.2022 DIN: 01348097

www.readwhere.com

(शोपियां निवासी) और मुजामिल राशिद मीर (पुलवामा निवासी) के तौर पर की गई है। उनके पास से दो पिस्तौल, दो मैगजीन और बंदूक की पांच गोलियां बरामद की गई है।' उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि गिरफ्तार लोग लश्कर के हाइब्रिड आतंकवादी हैं और वे बाहरी मजदूरों

समेत नागरिकों के साथ ही सुरक्षा बलों पर हमलों की

'हाइब्रिड' आतंकवादी दरअसल आतंकवादियों के रूप में अधिस्चित नहीं होते, लेकिन आतंकी मंसुबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और वे अपने आकाओं द्वारा दिए गए काम के अनुसार लक्षित हमले करने को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के बाद वे सामान्य जीवन जीने लगते हैं और अगला काम मिलने का इंतजार करते हैं।

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED CIN-L74899DL2000PLC105817 Regd. & Corporate Office: D-174, Ground Floor, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi- 110020.

Tel.: 011-47351111 Fax: 011-26229671 Website: www.tigerlogistics.in, Email.: tlogs@tigerlogistics.in

RESULT OF ELECTRONIC VOTING FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) OF COMPANY HELD ON 10[™] JUNE, 2022 AT 10:00 A.M (CONCLUDED AT 10:53 A.M.) THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/OTHER AUDIO VISUAL

The resolutions for the Special business as set out in item no.01 in the Notice of the EGM duly approved by the members with requisite majority. Essential details pertaining to EGM

Sr. No.	Fr. No. Particulars	
1	Date of EGM	10.06.2022
2	Number of Shareholder as on record date	6934
3	No. of shareholders present in the meeting through VC. Promoters & Promoter Group: Public:	48 6 42
Kindly no	the that the resolution was duly discussed & passed with re-	


Kindly note that the resolution was duly discussed & passed with requisite majority. Further shareholders are requested to refer www.tigerlogistics.in to get more details about result of EGM By the Order of board of directors

Place: New Delhi

Date: 10.06.2022

For Tiger Logistics (India) Limited **Harpreet Singh Malhotra Managing Director** DIN: 00147977

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय: मुख्य अभियंता (जल) परियोजना-I कार्यपालक अभियंता (परियोजना) डब्ल्यू-VIII



आरटीजीएस द्वारा प्रेषित की जाएर्ग रिसाइक्लिंग प्लान्ट का प्रावधान तथा बिछाना 2022_DJB_224140_1 इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें। पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 180 (2022-23)

कार्यपालक अभियंता (परियोजना) डब्ल्यू-VII ''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें'

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सी)-06

द्वारा उप अधीक्षण अभियंता(पीआर) एसआर-1 पॉकेट डी-7, रोहिणी सेक्टर-6, नई दिल्ली-110085, ईमेल: eepsr11@gmail.com प्रैस नोट एनआईटी सं. 04(2022-23) पुनर्आमंत्रित) निविदा डाउनलोड की अंतिम तिथि माध्यम से जारी

ii) ई-प्रापण सॉल्यूशन द्वारा निविदा प्राप्ति का समय की तिथि iii) तकनीकी बोली खुलने की तिथि कार्य का नामः एसी-08, मण्डका विधानसभा क्षेत्र दिल्ली में मण्डका इंडस्टियल एरिया 23.6.2022 के 3.00 बजे अप. तक मुण्डका गाँव से जोड़ने के लिये मेट्रो पिलर नं. 496 तथा 548 के सामने ट्रैन्चलेस तकनीक ii) 23.6.2022 के 3.00 बजे अप. तक 9426676/- 2022_DJB_224123_1 द्वारा 450 एमएम डाया एचडीपीई पाइप सीवर लाइन द्वारा रोहतक रोड/एनएच-10 क iii) 23.6.2022 के 3.15 अप. में iv) प्राप्त तकनीकी बोली की जांच के बाद

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें। पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी (होरेन्दर कुमार) उप एस.ई. (पीआर) एसआर-। विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 178(2022-23) ''कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें''

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेंड्यूल्ड कमशियल बैंक) रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381) सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बँक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की ''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों / सह-ऋणीयों / गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी /ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सुचित किया जाता है कि निम्न सुची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें । इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सुचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपटित नियम 3 (5)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभृत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते हैं । ऋण खाता संख्या / ऋणी/ सहऋणी/बन्धकर्ता/ घारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस बंधक सम्पत्ति का विवरण की दिनांक व राशि गारन्टर का नाम 9 जून 2022 र 1,23,81,953,25/- ऋणी की संपूर्ण् वर्तमान और भविष्य की चालू संपृत्तियों का दृष्टिबंधक, जिसमें अन्य बातों के खाता सं.) 2121244634647791

मैसर्स रोर सिंह नवीन कुमार एण्ड रु. एक करोड़ तेइस | साथ-साथ, केंच्चे माल का स्टॉक, प्रगति पर कॉम, तैयार माल, प्राप्य, बही ऋण और अन्य चाल् कम्पनी जरिए प्रोपराइटर श्री नवीन लाख इक्यासी हजार | संपत्ति व चल अचल संपत्तियां शामिल हैं। कुमार (ऋणी), नवीन कुमार पुत्र श्री बंधक अचल सम्पत्तियों की अनुसूची :-नो सौ तरेपन व र्शेर सिंह सैनी (जमानतदार), . सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग सम्पत्ति स्थित बना हुआ ग्राउँगँड फ्लोर बिना छत अधिकार के श्रीमती कविता पत्नी श्री नवीन पच्चीस पैसा मात्र (कथित फ्लोर) सम्पत्ति बियरिंग नं. ए-169 पर बना हुआ, ब्लॉक ए में, **क्षेत्रफल 180.00 वर्ग** कुमार (जमानतदार/ बंधककर्ता) गंज खरारा नं. 6/2 के बाहर, स्थित भरोला गांव का क्षेत्र, मजलिस पार्क के रूप में ज्ञात, 4 जून 2022 तक दिल्ली-110033 जो कि श्रीमती कविता पत्नी श्री नवीन कुमार के स्वामित्व में है। प्राधिकृत अधिकारी एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

दिनांक: 10-06-2022 स्थान : दिल्ली

(3) नीरज ठुकराल, ए-82, इन्द्रा नगर,

गली नं. ७, शंजरपुर, एन एस मण्डी,

उत्तर पश्चिमी दिल्ली-110033

मैसर्स ए बी एण्टरप्राईजेज

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूतिकरण अधिनियम, २००२ की Central Bank of India मांग सूचना १३(२)

डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे. डीडीए शॉपिंग कॉम्पलैक्स. लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतदद्वारों कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भूगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते है। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अचल सम्पत्ति की अनसची एवं अन्य विवरण

अवस समास का अपुर्वा इव अन्य विवरन		
कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
गारंटरः (1) श्रीमती अलका बहल बी—20 (बेसमेंट), लाजपत नगर—III नई दिल्ली—110024, दूसरा पताः ए—11, लाजपत नगर—III, नई दिल्ली—110024 (2) राकेश कुमार बहल ए—11, लाजपत नगर—III नई दिल्ली—24 (3) नीरज ठकराल, ए—82, इन्द्रा नगर	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो स्थित है – बेसमेंट मंजिल (आच्छादित क्षेत्र लगभग 1200 वर्ग फीट) बी—III / 20, लाजपत नगर, नई दिल्ली.	31.10.2020 को एनपीए 13.01.2022 को बकाया रू.1,04,99,307 / — (जो इस सूचना की तिथि को

को दर्शाता है) के नाम पर सीसीएल आपका ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तिर्यो को छडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद

13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। दिनांक: 11/06/2022 प्राधिकत अधिकारी, स्थानः नई दिल्ली सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लाजपत नगर, नई दिल्ली

निर्दोष लोगों की हत्या करना शर्मनाक: पुलिस महानिदेशक

जम्मू, 10 जून (भाषा)।

से भेजी गई।

भूमि एवं भवन)।

तिथि: 10.06.2022

स्थानः गुरूग्राम

पाकिस्तान और इसके आतंकी नेटवर्क द्वारा जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याओं को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने शर्मनाक हरकत करार दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस चुनौती से मजबूती से निपटने में कामयाब होंगे. क्योंकि लोग हमारे समर्थन में हैं। उन्होंने कहा

बैक ऑफ महाराष्ट्र

Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बँक

के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं। कठुआ में कहा कि पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर में शांति और

सामान्य हालात को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। वह लोगों के

सुशात लाक शाखा, गुड़गाव नीएफ-01-02, बी ब्लॉक स्क्वायर बिल्डिंग सुशांत लोक-1,

्राुरुग्राम, हरियाणा, टेली : 0124-4047136,

ईमेल : brmg1295@mahabank.co.in

प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-5

करना चाहता है। इसके लिए

जीवन में परेशानियां उत्पन्न

चनौती से मजबती से निपटा जाएगा। हम इससे निपटने में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बाद सिंह ने कामयाब होंगे, क्योंकि लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान व आइएसआइ के इशारे पर आतंकी इस तरफ आइइडी, हथियार व मादक पदार्थ पहुंचा रहे हैं।

> वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूनिट 203 एवं 204, द्वितीय तल, "ए" स्कंघ, नवमारत एस्टेट, जकारिया बंडर

कि एक बार फिर आतंकवादी आम नागरिकों को निशाना बनाने आतंकवादी हमेशा नए हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस

मार्ग, सेवरीं (पश्चिम), मुंबई-400015, महाराष्ट्र सीआईएन नं: U65922MH2005PLC272501

2002 क प्रातमूतिकरण आधानयम का धारा 13(2) क अंतगत माग सूचना ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को सुचना निर्गत की थी जो वीएचएफसीएल से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं व मूलधन के प्रतिभुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक कर चुके हैं तथा उक्त सुविधाएं अनिष्पादनीय परिसंपित्तियों बन चुकी हैं। उन्हें वित्तीय परिसंपितत्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं निर्गत की गई थीं, जो प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आई थीं तथा इसलिए एतद्द्वारा उन्हें उस सूचना के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

। धारा 13(2) के अंतर्गत मांग बंधककत संपत्ति का विवरण

9	ऋण खाता संख्या	सूचना की तिथि एवं राशि	
	प्रवीण कुमार (आवेदक), कमलेश (सह–आवेदक)	31 मई 2022/ रु. 25,02,818/— 13 नवंबर 2021 के	खसरा संख्या 1397/781/789, ग्राम करावल नगर, इलाका शाहदरा, दयाल पुर वाइन शॉप, दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली—110094, उत्तर— हरि की भूमि, दक्षिण— सड़क,
201100	LP0000000010719 राजेश धीर (आवेदक) रिया धीर (सह–आवेदक)	अनुसार 31 मई 2022/ रु. 46,78,652/— 13 नवंबर 2021 के	पूर्व— विक्रेताओं की भूमि, पश्चिम— भगवाना की भूमि खसरा संख्या 48/2, ग्राम चिकंबरपुर, परगना लोनी, निकट साई धरम कांटा, गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, उत्तर— अन्य संपत्ति, दक्षिण— अन्य संपत्ति, पूर्व—
	HL0000000014308	अनुसार	रास्ता 25 फुट, पश्चिम— अन्य संपत्ति खेवट संख्या 511 खतौनी संख्या 694 मुरितल संख्या 91
	इकबाल अहमद (आवेदक) शगुफ्ता नाज (सह–आवेदक)	31 मई 2022/ रु. 38,29,938/— 13 नवंबर 2021 के	किला संख्या 511 खताना संख्या 694 मुस्तिल संख्या 91 किला संख्या 1/1/1(1–7), खेवट संख्या 246, खतौनी संख्या 366, मुस्तिल संख्या 91, किला संख्या 1/1/1 (3–15), निकट दिल्ली मसजिद बढ़खल, फरीदाबाद,
	LP00000000020274	अनुसार	हेरियाणा 121001, उत्तर— देगर, दक्षिण— सड़क 15 फुट, पूर्व— लल्लू का भूखंड, पश्चिम— श्रीमती कक्कड़ का भूखंड
	सुशांत समल (आवेदक) सुमित कुमार (सह–आवेदक)	31 मई 2022/ रु. 13,82,127/— 13 नवंबर 2021 के	फ्लैट संख्या 101 ऊपरी भूतल छताधिकार के बिना, न्यू अजंता पार्क, खोड़ा कॉलोनी, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201001, उत्तर— सड़क 10 फुट, दक्षिण— सड़क 30 फुट,
ı	HL0000000025567	अनुसार	पूर्व– संदीप बंसल का भूखंड, पश्चिम– भूखंड संख्या 7

उनके गारंटरों (जहां कहीं लागू हों) को सलाह दी जाती है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाय राशि का भुगतान कर दें। बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के उपरांत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार आरे

की कार्रवाइयां की जाएंगी। कृपया यह सूचना प्राप्त करें कि उक्त सूचना भी धारा 13(13) के अंतर्गत है, जो ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को यह सूचित करने के लिए है कि उक्त बंधककृत संपत्ति का विक्रय नहीं किया जाना चाहिए/ उसे पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए तथा उसक हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांकः 11.06.2022 प्राधिकृत अधिकारी वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थानः दिल्ली

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-॥ (51521)

तृतीय और चतुर्थ तल स्टेट बैंक हाऊस, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005, फोन नं. 011-28752163, फैक्स नं. 28755674 ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

प्राधिकृत अधिकारी

सुशांत लोक शाखा, गुड़गांव

चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) ई-नीलामी दिनांक २७.०६.२०२२ हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय हेत् ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल सम्पत्तियां की धारा 13(4) जो

प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का (सांकेतिक / भौतिक) कब्जा, प्रतिभृत लेनदार के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहाँ है'', जैसा है''** और जो कुछ भी हैं" के आधार पर निम्नवर्णित उधारकर्ता, गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 27.06.2022 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 22.06.2022 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा 03.00 बजे तक

बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की ई-नीलामी वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जनित चालान

长	–नीलामी की तिथि व समय	AND SHARE THE PARTY OF THE PART	एनईएफटी द्वारा 24.06.2022 अप. 04.00 बजे तक पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पाह 03.00 बजे तक 4 घंटे प्र	Collection and Africa Collections	त विस्तार के साथ
क. सं.	कर्जदार(रॉ) / गारंटर(रॉ) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाईटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	मैसर्स अनीश ज्वैलर्स प्रा. लि.	₹ 336.00 लाख	1) प्रथम तल, 58, सर्व हितकारी कॉप हाउस बिल्डिंग सोसाइटी	₹ 115.00 लाख	धीरज कुमार
मो। एर	प्रोप. श्री सुरेंद्र गुप्ता पुत्र श्री मोडन लाल गुप्ता, निवासीः एस–203, जीएफ, ग्रेटर कैलाश – । नई दिल्ली	तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त	लिमिटेड, कैलाश हिल्स, नई दिल्ली—19 में स्थित, क्षेत्रफल 65. 65 वर्ग मी. (मौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 11.50 लाख	मो. 9560205656 आर.के. सचदेव
				₹ 0.10 लाख	
	श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी श्री	प्रभार	 दुकान नं. 12, डॉयमण्ड मॉल, गुरुद्वारा रोड़, करोल बाग, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 22.15 वर्ग मी. 	₹ 90.00 लाख	मो. 9873553161
	सुरेंद्र गुप्ता, निवासी एस-203, जीएफ, ग्रेटर		(सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है I)	₹ 9.00 लाख	
	कैलाश – ।, नई दिल्ली गारंटर: श्री लक्ष्मी नारायण जिंदल पुत्र श्री छना मल, श्रीमती संतोष जिंदल पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण जिंदल			₹ 0.10 लाख	
2	मैसर्स चौघरी ट्रेडिंग कंपनी,	₹ 42.11 लाख	संपत्ति जोकि 193 वर्ग ग्ज भूमि पर 2 और आधा मंजिला	₹ 68.00 लाख	्धीरज कुमार
	अशोका गार्डन के सामने गली, इसनपुर चौक —	दिनांक 31-08-2019	रिहायशी भवन इकाई, अशोका गार्डन के सामने गली में भूतल पर दो दुकानों के साथ, अग्रसेन मारुति रोड के पास हसनपुर	₹ 6.80 लाख	मो. 9560205656
3	अग्रसेन मारुति रोड, होडल, पलवल–121106	तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	चौक, होडल जिला पलवल में स्थित (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 0.10 लाख	आर.के. सचदेव मो. 9873553161
3	श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री		फ्लैट नं. बी-103, प्लॉट नं. जीएच-1, एफएफ, हरे कृष्णा कॉप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, सीजीएचएस, सेक्टर 45, फरीदाबाद में स्थित, जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 2141 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री -	₹ 78.20 लाख	धीरज कुमार मो. 9560205656
	आत्म स्वरूप चौधरी और श्रीमती शोबिता चौधरी पत्नी	दिनांक 31-12-2020 तक और भविष्य का		₹ 7.82 लाख	
- 1	श्री राकेश चौधरी	व्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	राकेश चौधरी पुत्र श्री आत्म स्वरूप चौधरी और श्रीमती शोबिता चौधरी पत्नी श्री राकेश चौधरी के नाम पर है। (मौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 0.10 लाख	आर.के. सचदेव मो. 9873553161
4		लाख दिनांक _, 05.02.	रिहायशी मकान नं. 4, खसरा नं. 2668 और 2699 का हिस्सा,	₹ 79.34 लाख	सुधीर कुमार सिन्हा
	(प्रोपराईटर) श्री गौरव कुमार अग्रवाल पुत्र		मोहल्ला रामगंज, जिला हापुड़ में स्थित, क्षेत्रफल 104.55 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती हेमलता के नाम पर है। चौहरी: पूरब में - - 18' चौडा रास्ता, पश्चिम में - 18' चौडा रास्ता, उत्तर में - श्री देवेन्द्र कुमार जग्गी का प्लॉट नं. 5, दक्षिण में - प्लॉट नं. 3 (मौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 7.94 লাख	मो. 9999139990
	श्री प्रवेश कुमार अग्रवाल,	लोन रु. 66.56 लाख दिनांक 04.09.2021 तक		₹ 0.10 लाख	आर के पोपली मो. 9891161345
5	श्री क्षितिज सरपाल पुत्र	र 29.86 लाख दिनांक 31-05-2020 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 5—जे / 27, नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, द्वितीय तल, एनएच—5, एनआईटी, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री क्षितिज सरपाल पुत्र देवेंद्र सरपाल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 30.00 लाख	सुधीर कुमार सिन्हा
	देवेंद्र सरपाल			₹ 3.00 लाख	मो. 9999139990
				₹ 0.10 लाख	आर के पोपली मो. 9891161345
6	मैसर्स दिनेश चंद	₹ 76.10 लाख	दुकान नं. 17 (अनाज मण्डी होडल) 3.25 मारला / 96.00 वर्ग गज, 6.5 मारला के दक्षिण पूरब कोने के निर्माण के अंतर्गत दुकान यूनिट के साथ, प्लॉट शामिल खेवत / खाता नं. 55/55 54/54, मुस्तिल नं. 226, किला नं. 13/3 (2/9), 14/2(0-14), 17/3(0-14, 14/4 (0-10), 18(4-0) मौज़ा होडल के रेवेन्यू ईस्टेट में, जिला पलवल—121006 में स्थित, यह दुकान श्रीमती सरोज देवी के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 29.76 लाख	सुधीर कुमार सिन्हा
	प्रवीन कुमार	न कुमार दिनांक 17-06-2020 तक और भविष्य का स्याज एवं अतिरिक्त प्रभार		₹ 3.00 लाख	मो. 9999139990
				₹ 0.10 लाख	आर के पोपली मो. 9891161345
7	श्रीमती नीति बियाला और	₹ 36.78 लाख	पलैट नं. 703, 7वां तल, टावर पेट्रोनस, ब्लॉक-21, ओमेक्स	₹ 40.00 लाख	सुधीर कुमार सिन्हा
	श्री अवनीश कुमार द्विवेदी फ्लैट नं. 703, 7वां तल,	कुमार द्विवेदी दिनांक 10-09-2021	हाइट्स, गाँव बुडेना और बसलवा के रेवेन्यू ईस्टेट के अंतर्गत, सेक्टर-86, तहसील और जिला फरीदाबाद (हरियाणा) में	₹ 4.00 लाख	मो. 9999139990
	रातर पेटोनस न्यॉक-अ	तक और भविष्य का	क्षित गर समानि श्रीमती नीति निगाना और श्री भतनीषा	₹ 0.10 लाख	

खाता / वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जानी है: मैसर्स एमएसटीसीलिमिटेड के साथ इसकी ई—नीलामी साइट https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी वालेट एनईएफटी के माध्यम से। बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की ई–नीलामी वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जनित चालान द्वारा अपने बँक के एनईएफटी द्वारा 24-08-2022 अप. 04.00 बजे तक अंतरित करनी होगी। किसी सहायता हेत् कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क को नं. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 पर तथा / अथवा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।

स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती नीति बियाला और श्री अवनीश

कृमार द्विवेदी के नाम पर है।

(मौतिक कब्जा बैंक के पास है।)

ई-नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं:

टावर पेट्रोनस, ब्लॉक-21,

86, तहसील और जिला

ओमेक्स हाइटस, सेक्टर

फरीदाबाद (हरियाणा)

ब्याज एवं अतिरिक्त

1. ई–नीलामी "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है के आधार पर" पर आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी बँक के अनुमोदित सेवा प्रदाता

एमएसटीसी ई—कॉमर्स के माध्यम से उनके वेबपोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर संचालित की जाएगी। 2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति / यों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति / यां, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रत्याभृत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों / अधिकारों / देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के अंश के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक करने की स्थिति में पहले जमा की चुकी गं राशि जब्त

कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और सम्पत्ति / राशि के संबंध में चूककर्ता बोलीदाता को कोई दावा / अधिकार नहीं होगा। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp तथा बैंक के

पोर्टल https://www.sbi.co.in पर उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत बिक्री का कानूनी नोटिस प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी-।।, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

दिनांक : 10-06-2022, स्थान : नई दिल्ली

₹ 0.10 लाख

आर के पोपली

मो. 9891161345

की तिथि को

बकाया मूलधन

प्लस ब्याज

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

"Form No. INC-25A" Advertisement to be published in the newspaper for Conversion of Public Company into a Private Company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region, **New Delhi** In the matter of the Section 14 of the Companies

Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of **RBG LEASING AND CREDIT LIMITED** (CIN: U51103DL1993PLC052652)
having its Registered Office at HOUSE

NO. C-59, GROŬND FLOOR BALI NAGAR RAMESH NAGAR, NEW DELHI-110015

.....Applican **NOTICE** is hereby given to the General Public that the company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of Converting itself into a Private Limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **06th June, 2022** to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change / status of the company, may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office address mentioned below :-

HOUSE NO. C-59, GROUND FLOOR BAL NAGAR, RAMESH NAGAR, NEW DÉLHI-110015 For & on behalf of Applicant RBG LEASING AND CREDIT LIMITED

NARESH KUMAR MALHOTRA Date: 10.06.2022 DIN: 06747647 Place: New Delhi



SME Center, 461, Main Road, Bholanath Nagar, Shahdara, Delhi-110032. Tel. 011-22300075, E-mail bi.61251@sbi.co.in

POSSESSION NOTICE

[Under Rule 8(1) of security interest (enforcement) rules, 2002] Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the State Bank of India under

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 27.07.2021 calling upon the Borrower Shri Devendra Kumar Khari Proprietor of M/s Smriti Sales Agency to repay the amount mentioned in the notice being Rs.17,06,956.83 and interest from 28.12.2020 (Rupees Seventeen Lakh Six Thousand Nine Hundred Fifty Six And Eighty Three Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ here under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 8th day of April of the

The Borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount of Rs.17,06,956.83/- and further interest from 27.07.2021, costs. etc. thereon.

The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

premises of the last known addresses of the said Borrowers, as per the said Act.

1. Mrs. MANJU W/O RADHEY SHYAM, Mr. RADHEY SHYAM 01.06.2022

2. | Mr. SURYA NATH PANDEY S/O LATE KEDAR NATH PANDEY,| 01.06.2022

3. Mr. VINOD KUMAR SINGH S/O SHYAM BHAJAN SINGH, Mrs. 01.06.2022

Name of Borrowers/Guarantors with address

Mr. RAMESH CHANDER S/O NEKSHA RAM (GUARANTOR)

Mr. NEERAJ PANDEY S/O SURYA NATH PANDEY (Borrower)

Mrs. DURGAWATI W/O SURYANATH PANDEY

MAMTA SINGH W/O VINOD KUMAR SINGH (BORROWERS)

Mr. SUSHIL KUMAR RANA S/O JUGAL SINGH (GUARANTOR)

Mrs. ARTI PANDEY W/O NEERAJ PANDEY (GUARANTOR)

SINGH S/O VISHESWAR (BORROWERS)

(GUARANTOR)

Date: 10.06.2022

Place: New Delhi

Property owned by: All that part and parcel of the property consisting of Flat No./ Plot No. EWQS 252-B Block Y, Sector -12, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh Bounded: On the North by- Flat No. 253/B. On the South by- Road. On the East by- Road. On the West by- Flat No.251/B

DATE: 08-06-2022, PLACE:- DELHI (Authorised Officer) State Bank of India

Sponsor: Canaba Ban Complement - Decor

CIN-L74899DL2000PLC105817 Regd. & Corporate Office: D-174, Ground Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020. Tel.: 011-47351111 Fax: 011-26229671

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED

Website: www.tigerlogistics.in, Email.: tlogs@tigerlogistics.in

RESULT OF ELECTRONIC VOTING FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) OF COMPANY HELD ON 10TH JUNE, 2022 AT 10:00 A.M (CONCLUDED AT 10:53 A.M.) THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM").

The resolutions for the Special business as set out in item no.01 in the Notice of the EGM duly approved by the members with requisite majority. Essential details pertaining to EGN are hereunder.

l	Sr. No.	Particulars	Details
	1	Date of EGM	10.06.2022
	2	Number of Shareholder as on record date	6934
	3	No. of shareholders present in the meeting through VC.	48
l		Promoters & Promoter Group:	6
		Public:	42
l	Kindly no	ote that the resolution was duly discussed & passed with re-	auisite maiority

Further shareholders are requested to refer www.tigerlogistics.in to get more details about result of EGM. By the Order of board of directors

Description of the

Secured Asset

SLF VED VIHAR, LONI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201102

East: HEALTH CENTER West: ARYAN PUBLIC SCHOOL

VASUNDHRA, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH

UTTAR PRADESH, (ADMEASURING 68.14 SQ MTR)

(ADMEASURING 41.8 SQ MTR)

(ADMEASURING 78 SQ MTR)

North: FLAT NO- GF-1

North: ROAD

East: PLOTNO 877

East: ROAD 20FT

FLAT NO- GF-2, GROUND FLOOR, BACK SIDE, PLOT NO- E-1,| 29.05.2022

ENTIRE FIRST FLOOR, PLOT NO 878, SECTOR 2B, 29.05.2022

West: Plot No. 879

VILL-RAISPUR, NEAR SECTOR-23, SANJAY NAGAR, GHAZIABAD,

North: REMAINING PORTION OF PLOT, South: OTHER PROPERTY

PLOT NO-119, KHASRA NO-345, BLOCK-M, FRIENDS COLONY, 29.05.2022

West: OTHER PROPERTY

South: OTHER PROPERTY

Place: New Delhi

Date: 10.06.2022

Email: delhi@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

CAN FIN HOMES LTD.

Can Fin Homes Ltd DDA Building, 1st Floor, Near Paras Cinema, Nehru Place, New Delhi-110019 Ph.: 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with

Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd., under SARFAESI Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with

Rule 3, issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrowers / guarantors listed hereunder (hereinafter referred to as the "said Borrowers")

The said Notices have been returned undelivered by the postal authorities / have not been duly acknowledged by the borrowers. Hence the Company by way of abundan

caution is effecting this publication of the demand notice (as per the provisions of Rule 3 (1). The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the

claimed as

per Demand

Notice*

14,94,657/-

30,20,377/-

28,05,210/-

You are here by called upon to pay the above said amount with contracted rate of interest thereon within 60 days from the date of publication of this notice, failing which the undersigned will be constrained to Initiate action under SARFAESI Act to enforce the aforesaid security. Further, the attention of borrowers / guarantors is invited to

Description of Properties

Residential property situated at part of khasra no. 132

Mi, Mauza – Azampur, Tehsil & Dist. Mathura. Total

area measuring 250.83 sq. mt. Property owned by

Premwati Devi W/o Raghunath Singh, Bounded as:

East: H/o Seller, West: Rasta 12' Wide, North: Land of

Open plot property situated at khasra no. 71 Mi, Mauza

Jawali, Tehsil Chhata & Dist. Mathura. Total area

measuring 185.80 sq. mt. Property owned by Anguri

West: Remaining land of seller, North: Land bhagwan

to repay the amounts mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per details given below.

*Payable with further interest at contractual rates as agreed from the date mentioned above till date of payment.

Bank. As per Demand Notice under Section 13(2) & further interest thereon, charges and costs due to the Canara Bank, as detailed in the table

Seller, South: Land of Girraj

provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available to them to redeem the secured assets


As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to the Company by the respective parties as detailed below.

Demand

Notice

For Tiger Logistics (India) Limited

Harpreet Singh Malhotra **Managing Director** DIN: 00147977



from eligible bidders for Interior, Furnishing and Electrical Works for its Gulmohar Park Branch, New Delhi. Details at: www.centralbankofindia.co.in Last Date: 17.06.2022.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Senior Regional Manager

Central Bank of India

R.O. Delhi (South) 454, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-05

PUBLIC NOTICE

Central Bank of India, Regiona

FORM NO. INC-26 Advertisement to be published in

the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

NORTHERN REGION In the matter of the Companies Act, 2013 Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR,

In the matter of UKB Industries Private Limited, having its registered office at C-118 Sector - 63 Noida Gautam Buddha Nagar UP 201301 IN

>Petitioner NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that a petition under section 13 of the Companies Act, 2013 will be filed with Regional Director, Northern Region by the petitioner company seeking confirmation of the alteration of clause II of the Memorandum of Association of the petitioner company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary general meeting of the petitioner company held on 06th June, 2022 to enable it to change the place of its registered office from the "State of Uttar Pradesh" to the "State of Gujarat".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company, may intimate to the Regional Director, Northern Region, Paryavaran Bhawan, B-Block, 2nd Floor, C.G.O. Complex, New Delhi - 110003 within 14 days of the publication of this notice, stating therein the nature of interest and the grounds of opposition, if any, supported by an affidavit with a copy to the Applicant Company at its registered office.

Manoj Tayal Place: New Delhi (Director)

For UKB Industries Private Limited

Date: 10.06.2022 DIN 01348097

TIME TO TIME)

ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED A fully customer centric company

TENDER NOTICE

E-tenders with validity up to 90 days are hereby invited from experienced and financially sound electrical equipments supplier (individual or Firm(s)), registered under the CMS portal of APDCL for supply of Protection Equipments for 33/11kv Burhapahar Sub-Stations under Kaliabor Electrical Sub-Division, APDCL. The bid document along with other relevant information will be available for download in www.apdcl.org and www.assamtenders.gov.in as mentioned hereunder:

Description	Date & Time
Tender document publishing date	10.06.2022 at 17.00 hrs.
Pre-Bid Meeting	20.06.2022 at 11:00 hrs.
Bid Submission start date and time	10.06.2022 from 17:00 hrs.
Bid submission end date and time	10.06.2022 from 17:00 hrs. 27.06.2022 till 16:00 hrs. 29.06.2022 at 14.00 hrs. neral Manager (D&S), APDCL
Technical Bid Opening Date & Time	29.06.2022 at 14.00 hrs.
Sd/- Chief Ge	neral Manager (D&S), APDCL

Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN Government of India, Ministry of Finance,

(Department of Financial Services) 2nd Floor, Paras Tower, Mazra, Saharanpur Road, Dehradun, UK. 248171 **PUBLICATION NOTICE** IN O.A. No. 26 OF 2022

SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993, READ WITH SUB-RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 AS AMENDED FROM

Dated: 02.06.2022 Dy. No. 545 Punjab National Bank V/s. M/s Vags Pharmaceuticals & ors.

1. M/s Vags Pharmaceuticals having its registered office at village pargana Bhagwanpur, Roorkee, UK. 247667 2. Neeraj kumar R/o House No. 593, Daulat Ram Colony Post Daurala District

Meerut. UP. Mahesh Chauhan R/o Village PO Chachili Thana Jewar, District Gautam budh Nagar UP.203207

4. Lam Kaur W/o Sohan Singh R/o Basant Vihar Ward No.4, Binauli Road Baraut Baghpat, UP. 250611 5. Vijay Chaudhary S/o Jagdish Singh R/o House No. 231, Soti Ganj, Cantt

Meerut, UP. 250001 Whereas the above named Applicant Bank has instituted OA No. 26 of 2022 against you for recovery of debts of Rs.11,19,95,287.80/- in which Hon'ble

Tribunal was pleased to issue Summons/Notice U/s 19(4) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 and was listed before the Registrar or 01.06.2022. Whereas, it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by way of this publication directing you to appear in person or through your duly

authorized agent or legal practitioner before the Tribunal on 16.08.2022 Further, you are required to show cause as to why the relief(s) prayed for in OA should not be granted and to file reply, if any, in your defence in a paper book form in sets and produce all the documents and affidavits under which your defence or claim for set off, counter claim, in this Tribunal personally or through your duly authorized agent or legal practitioner within 30 days from the date of the publication of this notice. Take notice that in case of default of your appearance on the specified day

and time before the tribunal, the case shall be heard and decided in your

Registrar Debts Recovery Tribunal, Dehradun

केन्द्रद्भावीक Canara Bank Regional office: Mathura E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF

2, Mathura

281004

ैं सिंडिकेट Syndicate

E-Auction Notice

Pe of Reserve Price

Rs. 27,53,978/

Rs. 2,75,397/

Rs. 2,67,500/

Rs. 26,750/-

Rs. 12,32,820,

Rs. 1,24,000/

Rs. 19,75,000/

Rs. 1,97,500/

Rs. 9,37,000/

Rs. 93,700/-

Rs. 5,27,000/-

Rs. 52,700/-

Rs. 12,32,820/

Branch:-Zila Parishad branch (Ph. No.) 9412751083 E-mail id cb18868@canarabank.com (Borrower) Bhoomika Singh W/o Daulat Singh, R/o: 409 Bankhandi Behind District Hospital Mathura, (Guarantor) Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable Property

Shri Santosh Kumar S/o Shri Motilal, R/o:

House No-220 Laxmi Nagar Tiraha

Yamuna Par Mathura-281005,

(Guarantor) Shri Kapil Kumar S/o Shri

Tota Ram, R/o: House No-44 Alipur

Thana Jamunapar Mathura-281001

(Borrower) M/s Shiva Restaurant

Through Prop. Raju S/o Udal Singh, R/o:

Baldeo Kunj Ronchi Bangar Mathura-

281005, (Guarantor) Shri Arun Kumar

S/o Shri Lekhraj Singh, R/o: Village And

Post Lohvan Tehsil Mahavan District

Mathura-281001, Shri Bhagwan Singh

S/o Shri Udal Singh, R/o: Baldeo Kunj

(Borrower) Shri Bhuvnesh Agarwal S/o

Shri Harish Chandra Agrawal, R/o:

Ayodhya Nagar Yamuna Par Mathura-

281305 (Guarantor) Shri Sanjay Kumar

S/o Mithu Lal, R/o: Shivnagar Colony

Taiyapur Ishapur Bangar Yamuna Par

Borrower Mr. Dinesh Chand S/o Babu

Kund Mathura Uttar Pradesh-281001,

(Guarantor) Mr. Babu Lal S/o Jugga,

Borrower: Mrs. Pooja Devi Wo

Pushpendra Singh, R/o:25- Buddh Vihar

Thana Highway- Aurangabad Mathura,

Vihar Colony Thana Highway-

Aurangab ad Uttar Pra desh -28100 1

Borrower: Mr. Titu S/o Prabhati Lal, R/o

11 Budan yinar Colony Inana Highway

Aurangabad, Uttar Pradesh-281001,

Thana Highway- Aurangabad Mathura

Mrs. Madhuri Shrivastava (Guarantor)

W/o Vedprakash Shrivastava. Ms.

Shivani Shrivastava Legal heirs of D/o

Shri Uma Shankar Agrawal, R/o: 40/41

Uttar Pradesh-281001

Mathura, Uttar Pradesh-281001

Lal, R/o 190/14 Goyal Pura Sarawati 8.17.282.14/-

R/o-190/14 Goyal Pura Saraswati Kund other charges

Uttar Pradesh-281001. (Guarantor) Mr + interest from

Titu S/o Prabhati Lal, R/o: 41 Buddh other charges

(Guarantor) Mrs. Pooja Devi Wd + interest from

Pushpendra Singh R/o: 25- Buddh Vihar other charges

Ronchi Bangar Mathura-281005

Mathura-281004

EMD Amount: A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0006977 Residential part of Wtr No. 73/270 Pushpak Chowle 6,80,426.09 | Vankhandi Tehsil & Distt Mathura area 66.17 Sq. Mt in the name Bhoomika Singh W/o Daulat Singh +other charges Bounded as: East: House Ashok Gola, West: House Kedare Singh, North: Rasta Aam, South: Bagichi

Rs. 12,10,000/ Rs. 1,21,000/-

Earnest Money

Rs. 3,00,900/-

Rs. 30,090/-

Rs. 2,15,000/-

Rs. 9,64,000/-

Rs. 96,400/-

Name & Address of Borrower **Total Liabilities** & Guarantors Branch:- Mathura Chowk Branch (Ph. No.)9412751027 e-mail id cb18521@canarabank.com, EMD Amount: A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0006977 Borrower: M/s Shri Madhuvan Bihar Traders, R/o: NH2 Mathura Agra Road 12,79,441.70 Azampur, Mathura - 281001, Sri. Yogendra Singh S/o Raghunath Singh, Guarantor: +other charges Smt. Premwati W/o Raghunath Singh Both R/o: 15, Ajampur NH2 Near petrol pump Mathura – 281001 Borrower(s). Mr Pushpendra S/o Mr Tota Ram, Guarantor: Mrs Anguri Devi

Chaudhary, (Co-Borrower) Smt.

Rajeswari W/o Sri Rajvir Chaudhary, Both

Dwarkesh Nagar, Mauza Bakalpur

Mathura- 281004, (Guarantor) Shri.

Kapoor Chand S/o Sadaram, R/o: 42

Dwarkesh nagar, Bakalpur Mathura-

Borrower: Sri Mohd. Rizwan S/o Mohd.

Mathura - 281001, (Guarantor) Shri.

Garden, Krishna Nagar Mathura,

Guarantor: Mr. Lalita Prasad Chaturvedi

S/o Mr. Ram Babu Chaturvedi, R/o- H

No- 72, Jait, Post- Chhata, Mathura, Mr.

Dileep & Pradeep Both S/o Mr. Premo

Girdharpur, Mathura - 281001

4,88,509.24 +interest W/o Mr Tota Ram.Both R/o: H. No. 11 +other charges Devi W/o Tota ram, Bounded as: East: Land hero, Buddh Vihar Colony Chandanvan phase Borrower: Shri. Rahul Jadon S/o Maan

Dai, South:Road. Residential property situated at Gaura Nagar, bearing on part of khasra no.84, Mauza Vrindavan Khadar, 20,95,210.25 Singh, R/o: 175/80 Asha Nagar, Tehsil & Dist. Mathura. Total area measuring 104.51 Jaisinghpura colony Mathura - 281001 +interest other charges sq. mt. Property owned by Rajrani W/o Maan Singh Guarantor: Smt. Rajrani W/o Maan Singh, R/o: H.No. 64 Asha Nagar Gayatri Tapobhumi Jaisinghpura Mathura-281001 Borrower: Sri Raivir Chaudharv S/o Mittu

Bounded as: East: Rasta 18 Ft, West: Plot Benami North: Plot Ashok Kumar, South: Plot Ram Nihor Residential property at plot no. 7 Block J Dwarkesh 24,93,915.70 Nagar, inside Khasra no. 395 Mauza Bakalpur. Tehsil +interest & Dist. Mathura. Total area measuring 116.12 sq. mt. R/o:Plot no.7, Block no. J Khsara no. 395 +other charges Property owned by Smt. Rajeswari Devi W/o Rajvir Chaudhary, Bounded as: East: 25 Feet Colony Road West: Part of Plot No. 5 & 6, North: Plot of Smt. Radha

Devi, South: Plot No. 8 Residential property at House water rate no. 148/103 10,05,705.70 gali Aheriyan (gali Babar, Mohalla Mewati). Tehsil & Dist. Mathura. Total area measuring 35.32 sq. mt.

Ayyub, **(Co-Borrower)** Smt. Samim W/o Sri Mohd Ayub, Both R/o: 429, Gali +interest Aheriyan Mevati Mohalla Deeg Gate, +other charges Mathura- 281001, (Guarantor) Shri. Habib S/o Gulchaman, R/o: Ajay Nagar, (Borrower) Sri Bhuri Singh S/o Angad 2,28,664.81 Abhishek puri colony, Goverdhan road

Shyam Lal S/o Chiddi Ram, R/o: Plot no. 12, Abhishek puri colony Goverdhan Road, Mathura - 281001 (Borrower) Shri. Maan Singh S/o Rakh Chand, R/o: H.No. 64 Asha Nagar Gayatri Tapobhumi Jaisinghpura Mathura - 281001, (Guarantor) Smt.

Rajrani W/o Maan Singh, R/o: H.No. 64 Asha Nagar Gavatri Tapobhumi Jaisinghpura Mathura - 281001 Branch:- Zlia Parishad branch (Ph. No.) 9412751083 E-mail id cb18868@canarabank.com EMD Amount: A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0006977 Borrower (s). Mrs. Rekha Chaturvedi W/o Mr. Pradeep, R/o- 231 28 Army 18,85,808.71/- 58 on khasra no. 589, Mauza Mathura Bangar, inside

+other charges | Property owned by Bhuri Singh S/o Angad Singh. 6,15,188.78 +other charges

+interest

+interest

Bounded as: East: Plot no. 97, West: 18 ft rasta, North: Plot no. 96, South: 16 ft road Residential property situated at Gaura Nagar, bearing on part of khasra no.84, Mauza Vrindavan Khadar, Tehsil & Dist. Mathura. Total area measuring 104.51 sg. mt. Property owned by Rairani W/o Maan Singh Bounded as: East: Rasta 18 ft, West: Plot Benami, North: Plot Ashok Kumar, South: Plot Ram Nihor

Residential Building Property at south part of Plot no.

Asha Puram Colony, Tehsil & Distt Mathura area 83.61

Devkinandan Chaturvedi, **Bounded as:** East:- Rasta

15' wide, West:- Plot of Har Prasad, North:- Remaining

Part of House no. 58, Nahar Singh, South:- House of

Residential Property, Water rate no. 162/337, Mohalla

Manoharpura, Tehsil & Distt. Mathura area 71 Sq. Mt.

+other charges | Sq. Mt. in the name Rekha Chaturvedi D/o Shri

Property owned by Mohd. Rizwan S/o Mohd. Ayub &

Smt. Shamim Begum W/o Mohd. Ayub Bounded as:

East: Gali 6 Ft Wide, West: H/o Noor Mohammad,

North: Gali 5 Ft Wide, South: H/o Molana Happan

Residential property at plot no. 96, Khasra no. 440

| Mauza Girdharpur inside Abhishekpuri colony, Tehsil & |

Dist. Mathura. Total area measuring 62.43 sq. mt.

Rs. 1,24,000/

Vedprakash Shrivastava, Ms. Deepali Shrivastava Legal heirs of D/o Vedprakash Shrivastava, All R/o: Shri Ji Rs. 14,60,000/ Apartment, Chandanvan 2 Mathura, Rs. 1,46,000/ Uttar Pradesh-281001 Borrower: Mr. Vijay Agrawal S/o Late

Uttar Pradesh-281001 Rs. 9,38,000/-Branch:- Mathura Vrindavan Road Branch (Ph. No.)9412751084 e-mail id cb18869@canarabank.com, Rs. 93,800/-(Borrower). Mr. Deepak Kumar Raghav S/o Devi Singh Raghav, R/o 1234 Radheyshyam Colony 2, Jaisinghpura Tehsil and Dist. Mathura- 281003, (Co-

Dist. Mathura- 281003

A Railway Colony, Motikunj Mathura, + interest from other charges

EMD Amount: A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0006977 Residential property situated at Plot no 3, part of Radheyshyam Colony 2, Jaisinghpura, Tehsil and Dist. 5,06,953.25 Mathura- 281003. total area measuring 30.09 sq. mt. Property owned by Smt. Ruma Devi W/o Devi Singh, Bounded as: East: Plot No 04. West: Part of Plot No 03, North: House of Seller then House of Master Wala

Rs. 10,77,000/-

Rs. 1,07,700/-

financialexp.epap.in

Both R/o- H No-20, Army Garden, Krishna Nagar Mathura. (Borrower) Mr. Nasir S/o Mr. Saddil,R/o-Rs. House No- 1703. Manhoharpura. Po-7.71,100.45 Kotwali, Mathura, Guarantor: Mr. Arif S/o Mohd Sadik, R/o- 162/320 Manoharpura, Bharatpur gate, Mathura

(Borrower) Hitesh Kumar S/o Shri Vishambhar Dayal, R/o: 211, Anandpuri. BSA Road. Radhika Vihar Po Krishna Nagar, Thana Kotwali, Mathura, (Guarantor) Dinesh Kumar Sharma S/o +other charges Tehsil & Distt Mathura area 79.34 Sq. Mt. in the name Shri Gauri Shankar Sharma, R/o: 173, Shanti Nagar Maholi Road Mathura, Rakesh Kumar Sharma S/o Shri Gauri Shankar Sharma, R/o: 172, Shanti Nagar

Maholi Road Mathura (Borrower) Madhuri Shrivastav W/o VedPrakash Shrivastav, R/o: Flat no. 303 Block 3 Virjapur, Inside Shri ji Shakuntala Dham Mathura, (Guarantor) Ved Prakash Shrivastav S/o Kunwar Pal R/o: Flat no. G 4 Block 2 & 3 Virjapur, Inside Shri ji Shakuntala Dham Mathura

in the name Shri Nasir S/o Saddil Bounded as: East: Rasta 5' wide, West: House of Dinesh, North: House other charges of Dori Lal And Nawab. South: House of Arif Residential Flat no. 303 on third floor in "Shri Ji **18.01,583.33** Shakuntala Dham", Block-2 & 3 (Part), Built up on Khasra no. 43, Chandanvan colony, Mauza Birjapur,

Hitesh Kumar S/o Shri Vishambhar Dayal, Bounded as: East: Exit Flat, West: Open Balcony, North: Flat no 304, SOUTH: Flat no. 303 A 23,56,087.37 +interest other charges

Radha Raman

Residential Flat no. G 3 on Ground floor in "Shri Ji Shakuntala Dham", Block-2 & 3 (Part) , Built up on Khasra no. 43, Chandanvan colony, Mauza Birjapur, Tehsil & Distt Mathura area 79.34 Sq. Mt. in the name Vedprakash Shrivastav S/o Kunwar Pal, Bounded as: East: Exit Flat, West: Open Space, North: Flat No. G 4 South: Flat No. G 3 A

Rs. 13,66,000/-Rs. 1,36,600/

Rs. 11,62,000/

Rs. 1,16,200/-

(www.canarabank.com) or may contact the related Branch during office hours on any working day. Date: 11.06.2022

+interest Borrower) Smt. Ruma Devi W/o Devi +other charge Singh, R/o Radheyshyam Colony 2 Jaisinghpura Tehsil and Dist. Mathura-281003, (Guarantor) Mr. Girraj Singh S/o Sujan Singh, R/o: Radheyshyam Colony, Jaisinghpura Bangar Tehsil and

South: Rasta 20ft Wide Last Date & Time for receipt tender document: 24.06.2022 up to 5.00 PM,

Other, South: House of Dal Chand

Others Land. South:- Flat No. 201

Authorized Officer, Canara Bank

Given under my hand and seal of this Tribunal on this 2nd day of june, 2022.

Description of Properties

Name & Address of Borrower & Guarantors FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) & 9(1)OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Authorised Officer

Can Fin Homes Ltd.

Date of

NPA

mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/ Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Narayan Singh S/o Shri Bahori Lal, R/o: Canara Bank, will be sold on "As is where is", As is what is", and "whatever there is" basis on 27.06.2022 for the recovery of dues to the 6B Geeta Enclave Bank colony Mathura

Earnest Money (Borrower) M/s Maa Electronics Prop.

+interest

+interest

3,06,979.54

+interest

interest fron

9,03,354.71

13,28,491.52

23,56,087.37

+ interest from

other charges

20,45,677/-

Total Liabilities

EMD Amount: A/c No 209272434 IFSC Code:CNRB0006977 5,38,033.64

Branch:-LOHVAN - Branch (Ph. No.) 9716910549 e-mail id cb18914@canarabank.com Residential property at plot No-5,6 and 7situated at Rs. 99000/-Banke mauja Raipur Mai Bangar tehsil mahavan district Mathura. Measuring 220.73 Sq.Mtr in the name of Shri Rs. 9900/-

-other charge Santosh Kumar S/o Shri Moti Lal Bounded as: East: Property of Vickey, West: Others Plot, North: 12' Wide Road, South: Land of Shankar Lal Residential property at plot No-1 Khasra No-512 Rs. 66,71,000/-7,03,042.22 Measuring 205.08 Sq.Mtr at mauza Auranagabad Bangar Rs. 6,67,100/-Tehsil mahavan district Mathura.Owner- Shri Raju and other charge Shri Bhagwan Singh Both S/o Shri Udal singhi, **Bounded** as: East: 112' Road, West: Plot No-2, North: Road, South: Plot No-4

Residential plot at part of khasra No 663 and 664 mauza measuring 83.61 Sq.Mtr Raipur mai bangar tehsil mahavan district Mathura. Owner- Bhuvnesh Agrawal, Bounded as: East: Plot Ramesh and others, West: Plot +other charge: Seller, North: Rasta 12 Feet, South: Plot Laxman

Branch:-KRC BRANCH (Ph. No.) 9412751082 e-mail id cb18867@canarabank.com EMD Amount: A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0006977 EMT of freehold residential property in the name of Mr Rs. 21,46,761/-Babu Lal S/o Jugga Ram At 194/18 Plot No 33

> Goverdhan Colony Govindpur Androon Khasra No 279 Tehsil & Distt Mathura, Total Area 162.96 Sq Mtr. Bounded as: East: Plot No Hari Shankar, West: Rasta 15'wide, North: Plot of Arjun, South: Plot of Chunnu EMT of freehold residential property in the name of Mrs Pooja Singh W/o Pushpendra Singh At Chak No 20 (part) Built On Plot No 10 Situated At Mauia Tantura Inside Budh Vihar Colony tehsil & Distt Mathura, Total Area 45.89 Sq Mtr. Bounded as: East: Rasta 10' Wide

West: House of Ramesh, North: House of Laxman, South: House of Satva Prakash EMT of freehold residential property in the name of Mr Titu S/o Parbhati Lal At Khasra No 5 Situated At Mauja Tantura, inside Budh Vihar Colony tehsil & Distt

Rs. 11,46,000/ Rs. 1,14,600/-Mathura, Total Area 80.65 Sq Mtr. Bounded as: East: House of Mr Ashok, West: Rasta 15'wide, North: Plot of

Branch:-Mathura Shanti Market branch, Contact: Manager (Ph. No 9412751026) E-mail Id: cb18520@canarabank.com, EMD Amount: A/c No 209272434 IFSC Code: CNRB0006977 All part & parcel of Residential property situated at Flat Rs. 13,66,000/ no. CA-005, Ground Floor, Block No. 07 Shri Ji Creative Apartments Tehsil & Distt Mathura, Total Area 1325 Sq. Rs. 1,36,600/-Ft., Bounded as: East: Common Passsage, West: Open

> Space, North: Block No. 08, South: Flat No. Ca 004 Residential property situated at Flat no. 202, 2nd Floor, Shree Ji Apartment, Block No. 1, Near Chandanvan Colony, Andrun Khasra No. 43, Mauza Virjapur, Tehsil & Distt Mathura, Total Area 1140 Sq ft. Bounded as: East:-

Common Road & Stairs, West:- Others Land, North:-Rs. 46,800/-

Date & Time of e-auction: 27.06.2022 from 11.30 AM to 12.30 PM (With extension of 5 min. duration each till the conclusion of sale) For details terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in Canara Bank's website

> Place: Mathura New Delhi

Rs. 4,68,000/-